



Literacy for a Billion

Movie: Daag 1973

Year: 1973

मेरे दिल में आज क्या है
तू कहे तो मैं बता दूँ
मेरे दिल में आज क्या है
तू कहे तो मैं बता दूँ

तेरी जुल्फ़ फिर सँवारूँ
तेरी माँग फिर सजा दूँ

मेरे दिल में आज क्या है
तू कहे तो मैं बता दूँ

मुझे देवता बनाकर
तेरी चाहतों ने पूजा
मुझे देवता बनाकर
तेरी चाहतों ने पूजा

मेरा प्यार कह रहा है
मैं तुझे खुदा बना दूँ
मेरा प्यार कह रहा है
मैं तुझे खुदा बना दूँ

मेरे दिल में आज क्या है
तू कहे तो मैं बता दूँ

कोई ढूँढ़ने भी आए

Song: Mere Dil Mein Aaj Kya Hai

Lyricist: Sahir Ludhianvi

तो हमें न ढूँढ़ पाए
कोई ढूँढ़ने भी आए
तो हमें न ढूँढ़ पाए
तू मुझे कहीं छुपा दे
मैं तुझे कहीं छुपा दूँ
तू मुझे कहीं छुपा दे
मैं तुझे कहीं छुपा दूँ

मेरे दिल में आज क्या है
तू कहे तो मैं बता दूँ

मेरे बाजुओं में आकर
तेरा दर्द चैन पाए
मेरे बाजुओं में आकर
तेरा दर्द चैन पाए
तेरे गेसुओं में छुपकर
मैं जहाँ के ग़म भुला दूँ
तेरे गेसुओं में छुपकर
मैं जहाँ के ग़म भुला दूँ

तेरी जुल्फ़ फिर सँवारूँ
तेरी माँग फिर सजा दूँ

मेरे दिल में आज क्या है
तू कहे तो मैं बता दूँ

Disclaimer: PlanetRead does not own these lyrics and is not using them for any commercial purpose. For over 20 years, PlanetRead has been subtitling Bollywood songs for mass literacy. These lyrics are being offered as part of PlanetRead's literacy development initiative.

PlanetRead is a tax-exempt, not-for-profit: 501(c) (3) in the United States and 80(G) in India.